

प्रेसनोट दिनांक 25.02.2023

थाना शाही-जनपद बरेली।

थाना शाही जनपद बरेली पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान गौवंशीय पशुओं का वध करने वाले अभियुक्तों किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमन्चा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 05 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर मय गौवध करने के उपकरण बरामद।

श्रीमान पुलिस उप-महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराधों की रोकथाम व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बरेली के निर्देशन में एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी मीरगंज, बरेली के निकट पर्यवेक्षण में थाना शाही पुलिस द्वारा दिनांक 24/25.02.2023 की रात्रि में करीब 23.00 बजे ग्राम गणेशपुर गन्ना क्रय केन्द्र से करीब 200 मीटर आगे ग्राम रास को जाने वाली सड़क के किनारे स्थित यूकेलिपटिस की बगिया वहद ग्राम गणेशपुर थाना शाही जिला बरेली में गौवध करने के आशय से बैठे बदमाशों को टोके जाने पर बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर देना। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ मे की गयी फायरिंग से अभियुक्त इरशाद पुत्र अकील अहमद नि0 ग्राम दुनका थाना शाही जनपद बरेली दाहिने पैर में घुटने के नीचे चोट/गोली लगने से घायल हो गया। घायल अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान थाना शाही पर तैनात आरक्षी 2757 गौरव कुमार बाँये हाथ में गोली लगने से घायल हुआ है। घायल अभियुक्त के कब्जे से 01 तमन्चा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 03 जिंदा कारतूस 315 बोर मय गौवध उपकरण छुरी, चापड़, लकड़ी का ठिहा, सूंआ व रस्सी बरामद किये गए हैं। घायल आरक्षी एवं अभियुक्त को उपचार हेतु CHC फतेहगंज पश्चिमी में भर्ती कराया गया है, स्थिति सामान्य है। पकड़े गये अभियुक्त का साथी गुड्डू पुत्र नजीर अहमद नि0 ग्राम दुनका थाना शाही बरेली अंधेरे का लाभ उठाकर भाग गया था जिसको दिनांक 25.02.2023 को समय 12.54 बजे लमकन भट्टे के पास से एक तमन्चा 315 बोर मय 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध मे थाना शाही पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण

1. इरशाद पुत्र अकील अहमद नि0 ग्राम दुनका थाना शाही जनपद बरेली। (घायल अवस्था मे)
2. गुड्डू पुत्र नजीर अहमद नि0 ग्राम दुनका थाना शाही बरेली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इरशाद

1. मु0अ0सं0 200/16 धारा 3/5/8 CS Act
2. मु0अ0सं0 43/2023 धारा 307 IPC (पुलिस मुठभेड़)
3. मु0अ0सं0 44/2023 धारा 3/25 A Act

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुड्डू उपरोक्त

1. मु0अ0सं0 43/2023 धारा 307 IPC (पुलिस मुठभेड़)
2. मु0अ0सं0 45/2023 धारा 3/25 A Act

बरामदगी का विवरण:-

1. दो तमन्चा 315 बोर, 2. एक खोखा कारतूस 315 बोर, 3. पांच जिंदा कारतूस 315 बोर मय गौवध उपकरण छुरी, चापड़, लकड़ी का ठिहा, सूंआ व रस्सी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1. थानाध्यक्ष श्री बलवीर सिंह थाना शाही जनपद बरेली।
2. SSI श्री रजनीश कुमार थाना शाही जनपद बरेली।
3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना शाही जनपद बरेली।
4. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार त्यागी थाना शाही जनपद बरेली।
5. का0 1466 रोबिन राणा थाना शाही जनपद बरेली।
6. का0 1108 सरफराज थाना शाही जनपद बरेली।